

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 196 वाहनों का चालान व 01 वाहनों से 1000/ रु0 शमन शुल्क वसूला गया।

कोरोना महामारी के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर मास्क न लगाने वाले कुल- 03 व्यक्तियों से 3000/- रुपये शमन शुल्क वसूला गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 35 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए 290 भादवि मे 14 व 110 जा0फौ0 में 10 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

**आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-**

**थाना श्यामदेउरवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-** अभियुक्त बिंदु केवट पुत्र गुड्डू सा0 बेलासपुर नर्सरी थाना श्यामदेउरवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-149/21, धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना ठूठीबारी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त अमलेश पुत्र श्रीकांत नि0 बेलवा थाना ठूठीबारी जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-85/21, धारा-60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-** अभियुक्त रामवृक्ष पुत्र सवदान नि0 कैथवलिया थाना सोनौली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 12 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-174/21, धारा-60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**थाना घुघली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-** अभियुक्त फूलचंद पुत्र प्रहलाद नि0 बेलहिया थाना घुघली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 18 शीशी देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-164/21, धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**थाना पनिररा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-** अभियुक्त रामबचन पुत्र रामाकांत निषाद नि0 बैदा बाजार थाना पनिररा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 70 शीशी देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-181/21, धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-** अभियुक्त नाम पता अज्ञात के कब्जे से 197 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-290/21, धारा-60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।  
कस्टम अधिनियम के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही-

**थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-** अभियुक्त प्रिंस अग्रवाल सा0 91 राजगढ़ चुरू राजस्थान के कब्जे से 69 पैकेट सजावटी सामान 61 पैकेट कृत्रिम ज्वेलरी बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- निल/21, धारा- 11 कस्टम अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गुण्डा अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना चौक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त 1-अमरजीत उर्फ रविन्द्र चौधरी पुत्र रामउदित निवासी खोष्टा थाना चौक जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-निल/21, धारा-3/4 गुण्डा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**विवेचनाओं का निस्तारण-** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-10 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

**जनपद में 25/26-07-2021 को विभिन्न अपराधों में कुल- 41 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।**